



Syllabus - Chapter - 8

Digital Financial Tools and Applications

Digital Financial Tools, Understanding OTP [One Time Password] and QR [Quick Response] Code, UPI [Unified Payment Interface], AEPS [Aadhaar Enabled Payment System], USSD [Unstructured Supplementary Service Data], Card [Credit / Debit], e-Wallet, PoS [Point of Sale], Internet Banking, National Electronic Fund Transfer (NEFT), Real Time Gross Settlement (RTGS), Immediate Payment Service (IMPS), Online Bill Payment.

Digital Financial Tools and Applications Most Important Questions

Q. 1. KYC का पूरा नाम क्या है?

- a) Know your customer
- b) Know your cash
- c) Knowledge of your customer
- d) None of these

Ans: a

Q. 2. बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेको के तेज निस्तारण में सहायता करता है?

- a) OMR
- b) OCR
- c) Bar code reader
- d) MICR

Ans: d

Q. 3. MMID का पूरा नाम क्या है?

- a) Mobile Money Identify
- b) Mobile Money Identifier
- c) Both
- d) None

Ans: b

Q. 4. मोबाइल बैंकिंग से संभव है?

- a) खातों की बचत राशि देखना
- b) बिजली बिल भुगतान
- c) फंड ट्रांसफर
- d) उपर्युक्त सभी

Ans: d

Q. 5. Bank द्वारा पर ब्याज दिया जाता है?

- a) Loans
- b) Deposits
- c) Transactions
- d) Withdraw

Ans: b



Q. 6. 'इंटरनेट बैंकिंग' का कार्य नहीं है?

- a) खाते से नकद निकालना
- b) खाते का विवरण देखना
- c) ऋण के लिए आवेदन करना
- d) हाल ही के कार्य का विवरण देखना

Ans: a

Q. 7. इसलिए, हमें बैंको को जरूरत होती है?

- a) ऋण लेने हेतु
- b) ब्याज प्राप्त करने हेतु
- c) रुपए सुरक्षित रखने के लिए
- d) उपर्युक्त सभी

Ans: d

Q. 8. निम्न में से कौन सा पहचान के सत्यापन से संबंधित दस्तावेज है?

- a) ड्राइविंग लाइसेंस
- b) पासपोर्ट
- c) पैन कार्ड
- d) यह सभी

Ans: d

Q. 9. एटीएम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं?

- a) 12
- b) 14
- c) 16
- d) 10

Ans: c

Q. 10. RTGS में 'T' का क्या अर्थ है?

- a) Tea
- b) Time
- c) Today
- d) Transfer

Ans: b

Q. 11. Aadhar से आशय है?

- a) UIDAI द्वारा जारी पहचान पत्र
- b) 12 अंकों का संख्या कार्ड है
- c) एक बचत खाता
- d) a और b दोनों

Ans: d

Q. 12. बैंक में खाता खोलने के लिए KYC मानदंडों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में किन दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से वैध माना गया है?

- a) आधार नंबर
- b) पासपोर्ट
- c) पैन
- d) उपर्युक्त सभी

Ans: d

Q. 13. QR Code का प्रयोग पहली बार कब हुआ?

- a) 1990
- b) 1993
- c) 1994
- d) 1995

Ans: c)



Q. 14. DFT का पूरा रूप क्या है?

- a) Digital financial Tools b) Digital dynamic Tools
c) Dynamic Financial Tools d) None

Ans: a

Q. 15. क्रेडिट करना किससे सम्बंधित है?

- a) बैंक में पैसे जमा करना b) Cash निकालना
c) Debit d) none of these

Ans: a

Q. 16. ITZ Cash किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है?

- a) Finance Ministry b) SBI
c) RBI d) GOI

Ans: c

Q. 17. बैंक द्वारा पर ब्याज लिया जाता है?

- a) जमाओ पर b) ऋण पर c) दोनों पर d) इनमें से कोई नहीं

Ans: b

Q. 18. Meastro card number कितने अंक के होते हैं?

- a) 22 b) 20 c) 19 d) 18

Ans: c

Q. 19. IMEI का पूरा नाम क्या है?

- a) Internet Mobile Equipment Identity
b) International Mobile Electronic Identity
c) International Mobile Equipment Identity
d) None

Ans: c

Q. 20. Credit Card को और किस नाम से जानते हैं?

- a) Soft money b) Easy money
c) Hard money d) Plastic money

Ans: d

Q. 21. चिकित्सालय में ऑनलाइन पंजीकरण किसके माध्यम से होता है?

- a) Internet b) Calc c) SMIS d) HMIS

Ans: d



Q. 22. Full form of UIDAI?

- a) University Identification Authority of India
- b) Unique Identification Authority of India
- c) Unique Information Authority of India
- d) None

Ans: b

Q. 23. बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है?

- a) प्रतिमाह
 - b) तिमाही
 - c) अर्धवार्षिक
 - d) वार्षिक
- Ans: b**

Q. 24. क्या डायल करके USSD सेवा का लाभ उठा सकते हैं?

- a) *121#
 - b) *99#
 - c) A And B
 - d) #123*
- Ans: c**

Q. 25. BHIM का पूरा नाम क्या है?

- a) Unified Payment Interface
 - b) Bahartiya Interface Money
 - c) International Banking Payment
 - d) Bharat Interface For Money
- Ans: d**

Q. 26. QR code को कब और किसने विकसित किया?

- a) Denso Wave, 1994
 - b) Mark Denis, 1995
 - c) Denso Mark, 1995
 - d) Richard Denis, 1998
- Ans: a**

Q. 27. QR code में कितने नंबर संग्रहित किये जा सकते हैं?

- a) 1024
 - b) 5028
 - c) 7089
 - d) कोई सीमा नहीं
- Ans: c**

Q. 28. QR code में कितने अल्फान्युमेरिक वर्ड संग्रहित किया जा सकते हैं?

- a) 4296
 - b) 5028
 - c) 7089
 - d) 10000
- Ans: a**

Q. 29. नगद निकासी के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं?

- a) True
 - b) False
- Ans: a**

Q. 30. Pocket किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था?

- a) HDFC
 - b) PNB
 - c) ICICI
 - d) SBI
- Ans: c**



Q. 31. ATM से क्या आशय है?

- a) बैंकों की शाखाएं
- b) बैंकों में स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर
- c) बिना स्टाफ के नकदी नकदी देना
- d) इनमें से कोई नहीं

Ans: a

Q. 32. PAN का पूरा नाम क्या है?

- a) A kind of account
- b) Permanent Account Number
- c) Position Account Number
- d) Primary Account Number

Ans: b

Q. 33. 'व्यक्तिगत लोन. किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के आधार पर दिया जाता है?

- a) सही
- b) गलत

Ans: a

Q. 34. NABARD किससे संबन्धित है?

- a) बैंक
- b) ऋण देने वाली संस्था
- c) ऋण लेने वाली संस्था
- d) इनमें से कोई नहीं

Ans: b

Q. 35. AEPS का पूरा नाम क्या है?

- a) Annual Premium Equivalent System
- b) Aadhar Enabled Payment System
- c) Aadhar Premium Enabled System
- d) Aadhar Payment Enabled System

Ans: b

Q. 36. बैंक द्वारा जारी किये जाने वाले OTP में कितनी संख्याएँ होती हैं?

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 8

Ans: c

Q. 37. OTP की समय सीमा कितनी होती है?

- a) 5 मिनट
- b) 10 मिनट
- c) 30 मिनट
- d) None

Ans: b

Q. 38. OTP कहाँ भेजा जाता है?

- a) पंजीकृत मोबाइल पर
- b) पंजीकृत ईमेल पर
- c) a तथा b दोनों पर
- d) किसी भी मोबाइल पर

Ans: c



Q. 39. रुपए को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का सुरक्षित माध्यम है?

- a) डिमांड ड्राफ्ट b) चेक
c) दोनों d) कोई नहीं

Ans: c

Q. 40. भारत में प्रथम ATM लगाया गया था?

- a) 1980 b) 1985 c) 1987 d) 1990

Ans: c

Q. 41. UPI से क्या आशय है?

- a) यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस b) इमीडिएट पेमेंट इंटरफेस
c) अनफाइंड पे इंटरफेस d) इनमें से कोई नहीं

Ans: a

Q. 42. निम्नलिखित का प्रयोग बैंकों में चेक और ड्राफ्ट में किया जाता है?

- a) CPU b) Bar code
c) OMR d) MICR

Ans: d

Q. 43. UPI की शुरुआत कसके द्वारा की गई?

- a) UIDAI b) NPCI c) Both d) None

Ans: b

Q. 44. व्यापारियों द्वारा अपने ग्राहकों का पुष्टिकरण KYC कहलाता है?

- a) True b) False **Ans: a**

Q. 45. निम्नलिखित में से कौनसा कार्य ATM नहीं करता है?

- a) नकद जमा b) मिनी स्टेटमेंट
c) नियमित बिल भुगतान d) शिकायत

Ans: a

Q. 46. मोबाइल बैंकिंग सेवा है?

- a) भुगतान b) बैलेंस की जांच c) खाता लेनदेन
d) उपयुक्त सभी

Ans: d

Q. 47. ABRS stand for?

- a) Aadhaar based remittance service
b) Aadhaar based reserve service
c) Aadhar based reserve software
d) none of these

Ans: a



CCC Test Chapter wise in Hindi

Download Notes in PDF website: www.upcissyoutube.com

Q. 48. QR code का क्या अर्थ है?

- a) Quick Register code
- b) Quick Response Code
- c) Quick random code
- d) NONE of these

Ans: b

Q. 49. IFSC Code में कितने अंक होते हैं?

- a) 11
- b) 14
- c) 16
- d) 15

Ans: a

Q. 50. IDS का पूरा नाम क्या है?

- a) Intrusion detection system
- b) International detection system
- c) Intrusion detection server
- d) none

Ans: c

CCC Course **Full Free Video Tutorial** Series uploaded on YouTube
Channel **UPCISS**

CCC Course Full Free PDF Notes and Test Paper Chapter wise in
Hindi/English

Uploaded on this website: www.upcissyoutube.com



Website: www.upcissyoutube.com

